

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ ۗ

કામિલ નેકી કો તુમ હરગિઝ નહી પહોંચ સકતે જબ તક કે અપની મહબૂબ ચીઝ મેં સે ખર્ચ ન કરો.

وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿۴۳﴾ كُلُّ

और जो चीज भी ખર્ચ કરો, તો યકીનન અલ્લાહ ઉસે જાનતે હૈં. તમામ

الطَّعَامِ كَانَ حِلاَّ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ

ખાને કી ચીજો બની ઇસ્રાઈલ કે લિયે હલાલ થી મગર જો હઝરત યઅકૂબ (અલૈહિસ્સલામ) ને

إِسْرَائِيلَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَةُ ۗ

અપને આપ પર હરામ કર લી થી ઇસ સે પેહલે કે તૌરાત ઉતારી જાએ.

قُلْ فَاتَّبِعُوا بِالَّتَّوْرَةِ فَاتُّوْهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۴۴﴾

આપ ફરમા દીજિયે કે ફિર તૌરાત લાઓ ઓર ઉસ કી તિલાવત કરો અગર તુમ સચ્ચે હો.

فَمَنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ

ફિર જો અલ્લાહ પર જૂઠ ઘડે ઇસ કે બાદ તો વહી લોગ ઝાલિમ હૈં.

فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿۴۵﴾ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ ۗ فَاتَّبِعُوا

આપ ફરમા દીજિયે કે અલ્લાહ ને સચ્ચ ફરમાયા. ફિર તુમ ઇબ્રાહીમ (અલૈહિસ્સલામ) કી મિલ્લત કા

مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۗ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۴۶﴾

ઇતિબા કરો જો એક અલ્લાહ કે હો કર રેહને વાલે થે, ઓર મુશરિકીન મેં સે નહી થે.

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ

યકીનન સબ સે પેહલા ઘર જો ઇન્સાનોં કે લિયે બનાયા ગયા, અલબત્તા વો ઘર હૈ જો મક્કા મેં હૈ,

مُبْرَكًا ۗ وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ ﴿۴۷﴾ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ

બરકત વાલા હૈ ઓર તમામ જહાન વાલોં કે લિયે હિદાયત હૈ. ઉસ મેં રોશન નિશાનિયાં હૈં,

مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۗ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ

મકામે ઇબ્રાહીમ હૈ. ઓર જો ઉસ મેં દાખિલ હો ગયા વો અમન વાલા હો ગયા. ઓર અલ્લાહ કે લિયે

عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۗ

ઇન્સાનોં પર ફર્જ હૈ બયતુલ્લાહ કા હજ કરના ઉસ શખ્સ કે લિયે જો બયતુલ્લાહ તક રાસ્તા કતઅ કરને કી

وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿۴۸﴾

તાકત રખતા હો. ઓર જો કાફિર હોગા તો યકીનન અલ્લાહ બેનિયાઝ હૈ તમામ જહાન વાલોં સે.

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ۚ

आप इरमा दीजिये अे अेडले कितलभ! अदललड की आयलत के सलथ कयूं कुङ्क करते डो?

وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ ﴿۸۷﴾ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ

और अदललड डेभ रडल डै उन आडलल को जो तुड करते डो. आड इरमा दीजिये अे अेडले कितलभ!

لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنِ آمَنَ تَبْغُؤْنَهَا

कयूं रोकते डो अदललड के रलस्ते से उस शरुस को जो ँडलन ललअे, तुड उस डें कणु

عَوَجًا وَ أَنْتُمْ شُهَدَاءُ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ

तललश करते डो ँस डलल डें के तुड जोनते डो. और अदललड डेभडर नडी डै उन कलडों से जो तुड

عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۸۸﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا

करते डो. अे ँडलन वललो! अडर तुड केडनल डलन लोडो

فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُم

अेडले कितलभ के अेक गिरुड कल तो वो तुडडारे ँडलन ललने के डलड

بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ ﴿۸۹﴾ وَ كَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ

डोडलरल तुडडें कलङ्कलर डनल डेंडो. और केसे कुङ्क करुडो, डलललंके तुड डर

تُثَلَّىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَ فِيكُمْ رَسُولُهُ ۗ وَمَنْ

अदललड की आयतें तिललवत की जोती डै और तुड डें अदललड के रसूल डै. और जो

يَعْتَصِمُ بِاللَّهِ فَكَانَ هُدًىٰ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿۹۰﴾

अदललड की रस्सी डलडडूत डकडुडल तो डकीनन उसे सीधे रलस्ते की तरङ्क डलडलयत डी जोती डै.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ

अे ँडलन वललो! अदललड से डरो जोसल के उस से डरने कल डक डै

وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿۹۱﴾ وَاعْتَصِمُوا

और तुडडें डौत न आअे डडर ँस डलल डें के तुड डुसलडलन डो. और अदललड की रस्सी को

بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ

ँकडुडे डो कर डलडडूत डकडुडो और अलड अलड डत डो. और डलड करु अदललड की

اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ

उस नेअडत को जो तुड डर डै जोड के तुड डुशडन थे, ङ्कलर अदललड ने तुडडारे डलल जोड डलडे,

ع-

فَأَصْبَحْتُمْ بِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ

झिरे तुम अल्लाह की नेअमत की वजह से आरि आरि बन गअे. और तुम आग के गण्डे के किनारे

مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا ۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ

पर थे, झिरे अल्लाह ने तुम्हें वहां से बचा लिया. इसी तरह अल्लाह तुम्हारे लिये अपनी आयतें

آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿۱۰۳﴾ وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ

बयान करते हैं ताके तुम डिहायतयाइता हो जाओ. और याहिये के तुम में से अेक जमाअत हो

يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ

जो बेर की तरइ बुलाती हो और अन्न बिल माइइ करती हो और नही

عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۱۰۴﴾ وَلَا تَكُونُوا

अनिल मुन्कर करती हो. और यही लोग इलाह पाने वाले हैं. और उन लोगों की तरह मत

كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ

बनो जो अलग अलग झिरेके हो गअे और जिन्हों ने इफ्तिलाइ किया इस के बाद के उन के पास रोशन

الْبَيِّنَاتِ ۗ وَأُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۱۰۵﴾ يَوْمَ

भोअजिजात आअे. और उन के लिये भारी अजाब होगा. उस दिन जिस दिन

تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ ۗ فَأَمَّا الَّذِينَ

कुछ येहरे सइइह होंगे और कुछ येहरे सियाह होंगे. झिरे अलबत्ता वो लोग जिन के

أَسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ ۗ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ آيٰتِنَا كُمْ

येहरे सियाह होंगे, (उन से कडा जाअेगा) क्या तुम ने अपने इमान लाने के बाद कुई किया?

فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿۱۰۶﴾

झिरे अजाब यभो इस वजह से के तुम कुई करते थे.

وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللّٰهِ ۗ

और अलबत्ता वो लोग जिन के येहरे सइइह होंगे वो अल्लाह की रहमत में होंगे.

هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۱۰۷﴾ تِلْكَ آيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوهَا

वो उस में उभेशा रहेंगे. ये अल्लाह की आयतें हैं जिन को हम आप के सामने उक के साथ

عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۗ وَمَا اللّٰهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿۱۰۸﴾

तिलावत करते हैं. और अल्लाह जहान वालों पर जुल्म का इरादा भी नही करते.

وَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۝

और अल्लाह की मिल्क हें वो तमाम चीजें जो आस्मानों में हें और जो जमीन में हें.

وَ اِلٰى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُورُ ﴿۱۱۷﴾ كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ

और अल्लाह ही की तरफ़ तमाम उमूर लौटाये जायेंगे. तुम बेहतरीन उम्मत हो जो ई-सानों

لِلنَّاسِ تَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

के लिये निकाली गई है, अन्न बिल माइफ़ करते हो और नही अनिल मु-कर करते हो

وَ تَوْمِنُونَ بِاللّٰهِ ۝ وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ

और अल्लाह पर ईमान रभते हो. और अगर अेडले किताब ईमान ले आते तो ये

خَيْرًا لّٰهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَ اَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُونَ ﴿۱۱۸﴾

उन के लिये बेहतर होता. उन में से कुछ लोग मोमिन हें, और उन में से अकसर नाइरमान हें.

لَنْ يَضُرُّوْكُمْ اِلَّا اَدٰى ۝ وَاِنْ يُقَاتِلُوْكُمْ يُؤْتُوْكُمْ

वो तुम्हें डरगिज उरर नही पडोया सकते मगर थोडा सा ईजा पडोयाना. और अगर वो तुम से किताल करेंगे

الْاَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ﴿۱۱۹﴾ ضَرَبْتَ عَلَيْهِمُ الدِّلَّةَ

तो वो तुम से पुश्त डेर कर भागेंगे. फिर उन की नुस्रत नही की जायेगी. उन पर जिल्लत मार दी गई

اَيْنَ مَا ثَقِفُوا اِلَّا بِحَبْلِ مِّنَ اللّٰهِ وَ حَبْلِ

जहां वो पाये जायें, मगर अैसे उरिये से जो अल्लाह की तरफ़ से हो और अैसे उरिये से

مِّنَ النَّاسِ وَبَآءٌ وُّبِغَضِبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَ ضَرَبْتَ

जो ई-सानों की तरफ़ से हो, और वो अल्लाह का गजब ले कर लौटे और उन पर

عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ۝ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ

पस्ती जमा दी गई. ये ईस वजह से के वो कुफ़ करते थे

بِآيٰتِ اللّٰهِ وَ يَقْتُلُوْنَ الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۝ ذٰلِكَ

अल्लाह की आयात के साथ और अम्बिया को नाइक कत्ल करते थे. ये ईस वजह

بِمَا عَصَوْا وَ كَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ﴿۱۲۰﴾ لَيْسُوْا سَوَآءٌ ۝

से के वो नाइरमान हें और उद से आगे बढते थे. ये सारे के सारे बराबर नही हें. अेडले किताब

مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اُمَّةٌ قٰبِلَةٌ يَتْلُوْنَ آيٰتِ اللّٰهِ اِنَّآ

में से अेक जमाअत है जो उक पर काईम है, अल्लाह की आयातों की रात की घडियों में तिलावत



الَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴿۱۱۱﴾ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

کرتے ہیں اور وہ نماز بھی پڑھتے ہیں۔ وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ اور آئندہ

الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ

دین پر اور اچھ بھل مارتے کرتے ہیں اور نھی انھل مھنر کرتے

عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ ۗ وَأُولَٰئِكَ

ہیں اور نکی کے کاموں میں تھی کرتے ہیں۔ اور یہ

مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿۱۱۲﴾ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا ۗ

اچھے لوگوں میں سے ہیں۔ اور جو بھل بھی وہ کریں تو دھرتی اس کی ناکھری نھی کی جائیگی۔

وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ﴿۱۱۳﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا

اور اللہ مھتکیوں کو بھب جانتے ہیں۔ یکنن وہ لوگ جنہوں نے کھ کیا،

لَنْ تَغْنَىٰ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ

دھرتی ان کے کھ کام نھی آئیں گے ن ان کے مال اور ن ان کی اولاد اللہ سے

شِيَاءَ ۗ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۱۱۴﴾

جرا بھی۔ اور یھی لوگ دھنھی ہیں۔ وہ اس میں دھشا رہیں گے۔

مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

ان بھیوں کا دھل جن کو وہ اس دھنھی دنھگی میں بھرتے کرتے ہیں

كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا

اس تھانی دھ کی ترد ہے جس میں سھت سرھی دھ، جو ایسی کھ کی بھتی کو پھوںھی دھ جنہوں نے

أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ ۗ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ

اھنی جان پر کھم کیا، کھر وہ اس کو بھبھاد کر دے۔ اور اللہ نے ان پر کھم نھی کیا

وَلَكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿۱۱۵﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا

دھکن وہ اھنی جانوں پر کھم کرتے بھ۔ اے ایمان والو! اھنے اھلوا کسی کو

بِطَانَةً مِّنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا ۗ وَدُّوا

رکھوں بھت بھناؤ، وہ تم سے کھاد کرنے میں کھتاھی نھی کرتے۔ وہ تو یالھتے ہیں

مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ۗ

وہ بھی جس سے تم بھکھت میں پدو۔ یکنن بھرتی آھیر دھ یکا ہے ان کے مھل سے۔

وَمَا تَخْفَىٰ صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ

और जो उन के सीने छुपाये हुवे हैं वो इस से भी बड़ी है. यकीनन हम ने तुम्हारे लिये

الآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿۱۱۸﴾ هَآنَتْكُمْ أَوْلَآءِ

आयतों को भोल भोल कर बयान किया अगर तुम अकल रहते हो. सुनो! तुम तो वो लोग हो के तुम

تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ

उन से महब्बत करते हो और ये तुम से महब्बत नहीं करते और तुम तमाम किताबों पर ईमान रहते हो.

كَلْبَهُ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا عَضُوءًا

और जब ये तुम से मिलते हैं तो अम्ना (के हम ईमान लाये हैं) केडते हैं. और जब तन्हाई में

عَلَيْكُمْ الْإِنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُؤْتُوا بَعْضِكُمْ

डोते हैं, तो तुम पर गुस्से की वजह से उंगलियों के पोरे काटते हैं. आप केड हीजिये के अपने

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿۱۱۹﴾ إِنْ تَمَسَّسَكُمْ

गुस्से से मर जाओ. यकीनन अल्लाह दिलों के डाल को भूष जानते हैं. अगर तुम्हें भलाई

حَسَنَةً تَسْأَلُهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا

पडोये तो उन्हें बुरी लगती है. और अगर तुम्हें मुसीबत पडोये तो इस से वो भूष हो जाते

بِهَا وَإِنْ تَصَبَّرُوا وَتَتَّقُوا لَأَيُّضْرِكُمْ كَيْدَهُمْ

हैं. और अगर सभ्र करोगे और मुत्तकी बनोगे तो उन का मक तुम्हें कुछ भी जरर नहीं पडोया

شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿۱۲۰﴾ وَإِذْ غَدَوْتَ

सकेगा. यकीनन अल्लाह उन के आमांल का ईडाला किये हुवे है. और जब आप अपने ओडल

مِنْ أَهْلِكَ تَبَوَّئِ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ۗ

से सुब्ड के वकत निकले, आप ईमान वालों को लडने की जगडों पर मुतअय्यन कर रहे थे.

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۱۲۱﴾ إِذْ هَمَّتْ طَآئِفَتٌ مِنْكُمْ

और अल्लाह सुन्ने वाले, ईल्म वाले हैं. जब तुम में से ढो जमाअतों ने ईराला किया के वो डिम्मत

أَنْ تَفْشَلُوا ۗ وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَآ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ

डार भेठे, डालांके अल्लाह उन का कारसाज है. और अल्लाह ही पर ईमान वालों को तवककुल

الْمُؤْمِنُونَ ﴿۱۲۲﴾ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ ۗ وَ

करना याडिये. और यकीनन अल्लाह ने तुम्हारी नुस्रत इरमाई बडर में इस डाल

۱۲۱

أَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۱۱۳﴾

मैं के तुम कमजोर थे. फिर तुम अल्लाह से डरो ताके तुम शुक्र अदा करो.

إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ

जब के आप ईमान वालों से इरमा रहे थे के क्या तुम्हें काफ़ी नहीं है के तुम्हारा रब

رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنَزَّلِينَ ﴿۱۱۴﴾

तुम्हारी ईम्दाद करे तीन हजार इरिशतों के जरिये जो उतारे जायेंगे.

بَلَىٰ ۚ إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فُورِهِمْ

कयूं नहीं! अगर तुम सभ्र करोगे और मुत्तकी बनोगे तो वो तुम्हारे पास झौरन आ जायेंगे,

هَذَا يُمِدُّكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ

ये वो है के तुम्हारा रब पांच हजार निशानजदा इरिशतों के जरिये तुम्हारी ईम्दाद

مُسَوِّمِينَ ﴿۱۱۵﴾ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ

करेगा. और अल्लाह ने इस को नहीं बनाया मगर तुम्हारे लिये भशाहत

وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ ۗ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا

और इस लिये ताके तुम्हारे दिल उस से मुत्तमईन हों. और नुसरत तो सिई जभरदस्त,

مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿۱۱۶﴾ لِيَقْطَعَ طَرَفًا

छिकमत वाले अल्लाह ही की तरफ से आती है. ताके वो काफ़िरो के अक गिरोड को

مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ ﴿۱۱۷﴾

काट कर रब दे या उन्हे (केही बना कर) जलील करे, के वो नाकाम वापस यले जायें.

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ

आप का इस मुआमले में कोई इफ्तियार नहीं है, याहे अल्लाह उन की तौबा कबूल करे

أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَأِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ﴿۱۱۸﴾ وَبِاللَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ

या उन्हे अजाब दे, कयूँके वही लोग जालिम हैं. और अल्लाह की मिल्क है वो तमाम चीजें जो

وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ يَعْفُرُ لِمَن يَشَاءُ وَ يُعَذِّبُ

आस्मानों में है और जो जमीन में है. अल्लाह मगफ़िरत करते हैं जिस की याहते हैं

مَّن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۱۹﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

और अजाब देते हैं जिसे याहते हैं. और अल्लाह भफ़शने वाले, निहायत रहम वाले हैं.

أَمِنُوا لَمْ تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۝

اے ایمان والو! کئی کئی گونا کر کے سود मत पाओ.

وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۱۴﴾ وَاتَّقُوا النَّارَ

और अद्लाह से डरो ताके तुम इलाह पाओ. और डरो उस आग से

الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿۱۵﴾ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ

जो काफ़िरो के लिये तैयार की गई है. और अद्लाह और रसूल का केडना मानो

لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۱۶﴾ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ

ताके तुम पर रहम किया जाअ. और अपने रब की भगडिरत की तरफ़

مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ ۝

दौडो और ऐसी जन्नत की तरफ़ जिस की चौडाई आस्मानों और जमीन के बराबर है,

أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿۱۷﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ

जो मुत्तकियों के लिये तैयार की गई है. उन के लिये जो भर्य करते हैं आसानी और

وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظَّيْنِ الْعَظِيمِ وَالْعَافِينَ

तकलीफ़ में और जो गुस्से को पी जाने वाले हैं और लोगों को माफ़

عَنِ النَّاسِ ۝ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْبِحْسِنِينَ ﴿۱۸﴾ وَالَّذِينَ

करने वाले हैं. और अद्लाह ओडसान करने वालों से मडुब्बत इरमाते हैं. और वो लोग हैं

إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا

के जब वो कोई बुरा काम कर बेठते हैं या अपनी जान पर जुल्म कर लेते हैं, तो अद्लाह को याद करने

اللَّهِ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ ۝ وَمَنْ يَغْفِرَ

लग जाते हैं, फिर अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करते हैं. और सिवाअे अद्लाह के

الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ ۝ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا

कौन गुनाह माफ़ कर सकता है? और वो अपने किये पर ईसरार नडी करते

وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿۱۹﴾ أُولَٰئِكَ جَزَاءُ هُمْ مَغْفِرَةٌ

ईस डाल में के वो जानते डो. उन का भदला उन के रब की तरफ़ से भगडिरत है

مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّتْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

और जन्नतें हैं जिन के नीचे से नेडरें बेडती डोंगी

خَلِيدِينَ فِيهَا ۖ وَ نِعَمَ أَجْرُ الْعَمَلِينَ ﴿۱۳۱﴾ قَدْ

जिन में वो हमेशा रहेंगे. और ये काम करने वालों का किन्ना अच्छा बदला है. यकीनन

خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ ۚ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ

तुम से पेड़ले तरीके गुजर चुके, तो जमीन में यकीन करो

فَأَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ﴿۱۳۲﴾ هَذَا

किर देवो के जुठलाने वालों का अजाम केसा हुवा? ये ई-सानों

بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَ هُدًى وَ مَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿۱۳۳﴾

के लिये बयान है और हिदायत और मुत्तकियों के लिये नसीहत है.

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ

और हिम्मत न हारो और गम न करो और तुम ही बुलन्द रहोगे अगर

مُؤْمِنِينَ ﴿۱۳۴﴾ إِنْ يَبْسُسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ

तुम ईमान वाले हो. अगर तुम्हें जम्म पड़ोया है तो उसी जैसा जम्म उस कौम को

قَرْحٌ مِّثْلُهُ ۖ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ۗ

भी पड़ोय चुका है. और ये जंगे हैं जिन को हम ई-सानों के दरमियान अदलते बदलते रहा करते हैं.

وَ لِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ ۗ

और ताके अद्लाह जान ले उन को जो ईमान वाले हैं और तुम में से शुहदा बनाये.

وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿۱۳۵﴾ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ

और अद्लाह जालिमों से महब्बत नही करते. और इस लिये ताके अद्लाह पालिस करे उन को

آمَنُوا وَ يَبْحَثَ الْكَافِرِينَ ﴿۱۳۶﴾ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا

जो ईमान लाये और काफिरों को भिटाये. क्या तुम ने ये समज रभा है के जन्नत में दाखिल

الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ

हो जाओगे डालांके अब तक अद्लाह ने मालूम नहीं किया उन को जो तुम में से मुजाहिद हैं

وَ يَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ﴿۱۳۷﴾ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَتُّونَ الْمَوْتَ

और अब तक सभ्र करने वालों को मालूम नहीं किया. और यकीनन तुम मौत की तमन्ना करते थे

مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ ۗ فَقَدْ رَآيْتُمْوهُ وَأَنْتُمْ

इस से पेड़ले के उस से मिलो. तो यकीनन तुम ने उस को अपनी आंभों से देप लिया.

تَنْظُرُونَ ﴿۱۳۲﴾ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ ۖ قَدْ خَلَتْ

और मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलयहि वसल्लम) नही हैं मगर भेजे हुवे पैगम्बर. यकीनन आप से पहले भडोत

مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۗ أَفَأَيْنَ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ

से पैगम्बर गुजर चुके. क्या फिर आप (सल्लल्लाहु अलयहि वसल्लम) मर जायें या कत्ल किये जायें

عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ۗ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ

तो तुम अपनी ओड़ियों के बल पलट जाओगे? और जो भी अपनी ओड़ियों के बल पलट जाओगा तो वो अल्लाह

فَلَنْ يَصُرَّ اللَّهُ شَيْئًا ۗ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ﴿۱۳۳﴾

को डरगिजल जरा भी जरर नहीं पडोया सकेगा. और अनकरीब अल्लाह शुक्र करने वालों को भदला देंगे.

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا

और किसी जानदार की ये ताकत नहीं है के वो मर सके मगर अल्लाह के हुकम से लिखी हुई

مُؤَجَّلًا ۗ وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا ۗ

(मुकरर की हुई) मुदत पर. और जो दुन्या के सवाब का धरादा करेगा तो हम उस को उस में से

وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا ۗ وَسَيَجْزِي

कुछ दे देंगे, और जो आभिरत के सवाब का धरादा करेगा तो हम उस को उस में से कुछ दे देंगे. और

الشَّاكِرِينَ ﴿۱۳۴﴾ وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيِّ قُتِلَ ۖ مَعَهُ

अनकरीब हम शुक्र अदा करने वालों को भदला देंगे. और भडोत से नबी थे के उन के साथ भडोत से

رَبِّيُونَ كَثِيرٌ ۖ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ

अल्लाह वालों ने किताल किया. फिर उन मुसीबतों की वजह से जो उन्हें पडोयी अल्लाह के

فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا ۗ وَاللَّهُ

रास्ते में उन्हों ने न हिम्मत डारी और न कमजोरी दिभाई और न दभे. और अल्लाह

يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ﴿۱۳۵﴾ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا

सभ्र करने वालों से मडब्बत इरमाते हैं. और उन की हुआ सिई ये थी के केडने लगे

أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ اسْرَأْنَا

ओ हमारे रब! तू हमारे लिये हमारे गुनाह भुश दे और इस काम में हमारी जयादती

فِي أَمْرِنَا وَتَبَّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ

माई कर दे और हमारे कदम जमा दे और काफिर कौम के भिलाई हमारी नुस्रत

الْكَافِرِينَ ﴿۱۴۳﴾ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا

۱۴۳) इरमा. तो अल्लाह ने उन्हें दुन्या का सवाब भी दिया और आभिरत

وَ حُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۴۴﴾

का बेहतर सवाब भी दिया. और अल्लाह नेकी करने वालों से मडभत इरमाते हैं.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا

ओ ईमान वालो! अगर तुम काफ़िरो का केडना मान लोगे तो वो तुम्हें

يُرُدُّوكم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خِسرِينَ ﴿۱۴۵﴾

तुम्हारी अडियों के बल पलटा कर मुर्तद बना देंगे, फिर तुम नुकसान उठाने वाले बन जाओगे.

بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الْمَوْلِيْنَ ﴿۱۴۶﴾ سَنَلْقِيْ

बल्के अल्लाह तुम्हारा मौला है. और वो बेहतरीन नुस्रत करने वाला है. अनकरीब डम काफ़िरो

فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرَّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ

के दिलों में रौब डाल देंगे, ईस वजह से के वो शरीक ठेडराते हैं अल्लाह के साथ

مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا ۖ وَمَأْوَهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ

असी थीजें जिन पर अल्लाह ने कोई दलील नडी उतारी. और उन का ठिकाना दोजभ है. और वो

مَثْوَى الظَّالِمِينَ ﴿۱۴۷﴾ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعَدَاةَ

जालिमों का भुरा ठिकाना है. और यकीनन अल्लाह ने तुम से अपना वादा सय कर दिभाया

إِذْ تَحْسَبُونَهُم بِأَذْنِهِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ

जब तुम उन कुफ़र को अल्लाह के हुकम से कत्ल कर रहे थे. यहां तक के जब तुम छिम्मत डार बैठे

وَ تَنَارَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ وَعَصَيْتُمْ مِّنْهُ بَعْدَ

और तुम ने ईस मुआमले में आपस में जघडा किया और तुम ने नाइरमानी की ईस के बाद के

مَا آتَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ ۗ مِنْكُمْ مَّن يُّرِيدُ الدُّنْيَا

अल्लाह ने तुम्हें दिभाई वो (इतड) जो तुम पसन्द करते थे. तुम में से कुछ वो हैं जो दुन्या याडते हैं

وَ مِنْكُمْ مَّن يُّرِيدُ الْآخِرَةَ ۗ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ

और तुम में से कुछ वो हैं जो आभिरत याडते हैं. फिर अल्लाह ने तुम्हें उन से इर दिया ताके अल्लाह

لِيَبْتَلِيَكُمْ ۖ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ ۗ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ

तुम्हें आजमाई. और यकीनन अल्लाह ने तुम्हें माफ़ कर दिया. और अल्लाह ईमान वालों पर

عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ۱۵ إِذْ تَصْعَدُونَ وَلَا تَلُونَ

इजल वाले हैं. जब तुम पहाड पर चण्डे चले जा रहे थे और पीछे मुड कर किसी को देखते ली

عَلَى أَحَدٍ وَ الرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أَخْرَابِكُمْ فَأَتَابَكُمْ

नहीं थे डालांके रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम) तुम्हें पुकार रहे थे तुम्हारे पीछे, फिर

عَمَّا بَغِمَ لَكُمْ لِكَيْلًا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا

अल्लाह ने तुम्हें गम के बढले गम दिया ताके तुम गम न करो उस इतल पर जो तुम से जैत डो गछ और न

مَا أَصَابَكُمْ ۖ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۱۶

उस शिकस्त पर जो तुम्हें पडोथी. और अल्लाह बाभबर है उन कामों से जो तुम करते डो.

ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمْنَةً نُّعَاسًا يَغْشَى

फिर अल्लाह ने तुम पर गम के बाद इत्मिनान वाली डिंघ डतारी जो तुम में से अेक जमाअत

طَائِفَةً مِّنْكُمْ ۖ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ

पर तारी थी और अेक जमाअत को अपनी जानों का डिक था,

يَطُؤُونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ ۖ

वो अल्लाह के साथ डक के अलावा का जाडिलीयत का गुमान करते थे.

يَقُولُونَ هَلْ لَّنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ ۖ قُلْ

वो केडते थे के डमारे लिये इस मुआमले में कोछ इफ्तियार नहीं है. आप इरमा डीजिये

إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ ۖ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِمْ

के तमाम डमूर अल्लाह के कडले में हैं. वो अपने डिलों में छुपाते हैं वो जिस को आप के सामने

مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ ۖ يَقُولُونَ لَوْ كَان لَنَا مِنَ الْأَمْرِ

जाडिर नहीं करते थे. वो मुनाडिकीन केडते थे के अगर डमारा इस मुआमले में कोछ ली इफ्तियार

شَيْءٍ مَا قُتِلْنَا هُنَا ۖ قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ

डोता तो डम यडं क्तल न डिये जाते. आप इरमा डीजिये के अगर तुम अपने घरों में ली रेडते तो ली यकीनन

لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ ۗ

मुआरिअ बन कर निकलते वो जिन पर क्तल डोना लिभ डिया गया था, (वो निकलते) अपने क्तल डोने की जण्डों की तरड.

وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحَّصَ مَا

और अल्लाह ने अैसा इस लिये डिया ताके अल्लाह इम्तिडान ले उस का जो तुम्हारे सीनों में है और ताके साड



فِي قُلُوبِكُمْ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١٥٦﴾

करे उस को जो तुम्हारे दिलों में है. और अल्लाह दिलों के डाल को भूख जानते हैं. यकीनन

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ۚ

वो लोग जो तुम में से मैदान छोड़ कर चले गये उस दिन जिस दिन दोनों लश्कर भाड़म मुकाबिले हुए,

إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا ۖ

तो उन को तो सिर्फ शयतान ने झुसलाया उन भाज उरकतों की वजह से जो उन्होंने ने की.

وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٥٧﴾

यकीनन अल्लाह ने उन्हें माफ़ कर दिया. यकीनन अल्लाह बख्शने वाले, डिल्म वाले हैं.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا

ओ ईमान वाले! तुम उन की तरह मत बनो जिन्होंने ने कुछ किया

وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ

और जिन्होंने ने अपने साथियों से कहा जब वो जमीन में सफ़र करते हैं

أَوْ كَانُوا غَزَىٰ لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا

या गाज़ी बन कर जाते हैं के अगर वो हमारे पास रहे तो न मरते

وَمَا قَتَلُوا ۗ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَٰلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ ۗ

और कत्ल न किये जाते. ताके अल्लाह उस को उन के दिलों में उसरत बनाओ.

وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٥٨﴾

और अल्लाह ही जिन्दी देते हैं और मौत देते हैं. और अल्लाह तुम्हारे आमांल देख रहे हैं.

وَلَئِنْ قَتَلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ

और अगर तुम अल्लाह के रास्ते में कत्ल किये जाओ या मर जाओ तो अल्लाह की तरफ़ से मगफ़िरत और

مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿١٥٩﴾ وَلَئِنْ مُتُّمْ

रहमत बेहतर है उस दौलत से जिसे वो जमा कर रहे हैं. और अगर मर जाओ या तुम कत्ल किये जाओ तो

أَوْ قَتَلْتُمْ لَا إِلَى اللَّهِ تَحْشَرُونَ ﴿١٦٠﴾ فَبِمَا رَحْمَةٍ

यकीनन अल्लाह ही की तरफ़ तुम एकट्टे किये जाओगे. फिर अल्लाह की रहमत की वजह से ही उन के लिये आप

مِّنَ اللَّهِ لَئِن لَّهُمْ ء وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ

(सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम) नरम हो गये हैं. और अगर आप सफ़्त या सफ़्त दिल वाले होते तो यकीनन

لَا تَنْفُضُوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ

सडाभाओ किराम (रदियल्लाहु अन्हुम) आप के आस पास से मुत्तशिर छो जाते. ईस लिये आप उन्हे माफ़ क्रीजिये और उन के लिये

لَهُمْ وَ شَاوَرَهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ

मगइरत तलब क्रीजिये और कामों में उन से मशवरा लेते रहिये. फिर जब आप पुत्ता धरादा कर लें तो अल्लाह ही पर

عَلَى اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿۵۶﴾ إِنَّ يَنْصُرْكُمْ

तवक्कुल क्रीजिये. यकीनन अल्लाह तवक्कुल करने वालों से मददमत इरमाते हैं. अगर अल्लाह तुम्हारी नुस्सत करे

اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِنْ يَحْذِلْكُمْ فَمَنْ

तो तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता. और अगर वो तुम्हारी नुस्सत छोड दे तो अल्लाह

ذَا الَّذِي يَنْصُرْكُمْ مِنْ بَعْدِهِ ۖ وَ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ

के बाद कौन है जो तुम्हारी नुस्सत करे? और अल्लाह ही पर इमान वालों को तवक्कुल

الْمُؤْمِنُونَ ﴿۵۷﴾ وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَغْلُظَ وَمَنْ

करना थाडिये. और किसी नबी की ये शान नहीं है के वो भयानत करे. और जो भयानत

يَغْلُظُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ ثُمَّ تُوَفَّى

करेगा तो ले कर आयेगा क्यामत के दिन वो चीज जिस में भयानत की है. फिर हर शप्स को अपने किये

كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۵۸﴾ أَفَمَنْ

का पूरा पूरा भदला दिया जायेगा, और उन पर जुल्म नहीं किया जायेगा. क्या फिर वो शप्स जिस ने

اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخِطٍ مِنَ اللَّهِ

अल्लाह की भुशानूही का इत्तिबा किया उस शप्स की तरफ डो सकता है जो अल्लाह का गजब ले

وَمَا وَهُ جَاهَنَّمَ ۖ وَبِئْسَ الْبَصِيرُ ﴿۵۹﴾ هُمْ دَرَجَتٌ

कर लौटा और उस का ठिकाना जहन्नम है? और वो भुरी जगा है. वो अल्लाह के पास मुत्तलिफ़ दरजात

عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿۶۰﴾ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ

में डोंगे. और अल्लाह देभ रडे हैं उन कामों को जो वो कर रडे हैं. यकीनन अल्लाह ने अेडसान इरमाया

عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ

इमान वालों पर जब के उन में रसूल भेजा उन्ही में से जो उन पर अल्लाह

يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَ يُزَكِّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ

की आयतें तिलावत करते हैं और उन का तजकिया करते हैं और उन्हे किताब और उिकमत की

وَالْحِكْمَةَ ۚ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿۱۴۷﴾

तालीम देते हैं. और यकीनन वो इस से पेड़ले अलबत्ता भुली गुमराही में थे.

أَوَلَمْ يَأْتِكُمْ مَصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا ۚ

क्या तुम्हें जो अक मुसीबत पड़ोथी तो उस की दुगनी तुम उन काफ़िरो को नही पड़ोया चुके?

فَلْتُمْ أِنِّي هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ ۗ

तुम केडते हो के ये मुसीबत कहां से आ गई? आप इरमा दीजिये के ये तुम्हारी ही तरफ़ से आई. यकीनन

إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۱५०﴾ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ

अद्लाह उर थीज पर कुदरत वाले हैं. और जो मुसीबत तुम्हें पड़ोथी उस दिन जिस दिन दोनो लश्कर

التَّقَى الْجَمْعِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱५१﴾

भाडम मुकाबिल हुवे वो अद्लाह के हुकम से (पड़ोथी) और इस लिये ताके अद्लाह ईमान वालों को

وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا ۖ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا

मालूम करे. और ताके अद्लाह मुनाफ़िकीन को मालूम करे. डालांके उन से कडा गया के आओ,

قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ

अद्लाह के रास्ते में किताल करो या कम अज कम दिफ़ा तो करो. तो वो केडते हैं के अगर हम ढंग

قِتَالًا لَّا اتَّبَعْنَاكُمْ ۗ هُمْ لِلْكَفَرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ

की लडाई जानते तो हम ज़रूर तुम्हारे पीछे चलते. वो उस दिन ईमान की बनिसबत कुड़ के

مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ ۚ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ

जयादा करीब थे. वो अपने मुँड से ऐसी बात केडते थे जो उन के

فِي قُلُوبِهِمْ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ﴿۱५२﴾ الَّذِينَ

दिलों में नही थी. और अद्लाह भूब जानते हैं जो वो छुपा रहे हैं. वो लोग जो अपने भाईओं

قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا ۗ

से केडते हैं, और भुद बैठ गअे हैं, के अगर ये हमारा केडना मानते तो वो कतल न किये जाते.

قُلْ فَادْرَأُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ

आप इरमा दीजिये के इर तुम अपने आप से मौत को दफ़ा करो अगर

صَادِقِينَ ﴿۱۵۳﴾ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قَاتَلُوا فِي سَبِيلِ

सख्ये हो. और आप उन लोगों को जो अद्लाह के रास्ते में कतल किये जाअे

اللَّهُ أَمْوَآتًا ۖ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْرَقُونَ ﴿۱۳۹﴾

मुहँ गुमान न करे. बल्के वो अपने रब के पास जिन्दा हैं, उन्हें रोकी दी जाती है. वो भुश

فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۖ وَ يَسْتَبْشِرُونَ

हैं उस पर जो अल्लाह ने अपने इजल से उन को दिया है और वो भुशभरि पछोयाना याहते हैं

بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ ۖ إِلَّا خَوْفٌ

उन लोगों को जो उन से नही मिले उन के पीछे वालों में से इस बात की के उन पर न भौक

عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۱۴۰﴾ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ

है और न वो गमगीन हैं. वो भुशभरि पछोयाना याहते हैं अल्लाह की

مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ ۖ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ

नेअमत की और अल्लाह के इजल की और इस बात की के अल्लाह इमान वालों का अजर

الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۴۱﴾ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ

जायेअ नही करेगे. वो लोग जिन्हों ने अल्लाह और रसूल का हुकम माना

مِّنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ ۚ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا

इस के बाद के उन को जभम पछोया, उन लोगों के लिये जो उन में से नेक हैं

مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرَ عَظِيمٍ ﴿۱۴۲﴾ الَّذِينَ قَالَ لَهُمْ

और मुत्तकी हैं, उन के लिये भारी अजर है. वो लोग जिन से लोगों ने

النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ

कहा के यकीनन ये लोग तुम्हारे लिये जमा हो गये हैं, तो तुम उन से डरो तो इस थीज

فَزَادَهُمْ إِيمَانًا ۚ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿۱۴۳﴾

ने उन के इमान को और बण्डा दिया. और उन्होंने ने कहा के अल्लाह हमें काफ़ी है और बेहतरीन

فَأَنْقَلَبُوا بِنِعْمَةِ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَسْسَهُمْ

कारसाज है. फिर वो अल्लाह की नेअमत और अल्लाह के इजल को ले कर लौटे, उन को किसी तकलीफ

سُوءًا ۖ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ﴿۱۴۴﴾

ने छुवा तक नही और उन्होंने ने अल्लाह की भुशनूदी का इत्तिबा किया. और अल्लाह भारी

إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ ۖ فَلَا تَخَافُوهُمْ

इजल वाले हैं. ये तो सिर्फ़ शयतान अपने दोस्तों से डराता है. तो तुम उन से मत डरो

وَخَافُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۴۵﴾ وَلَا يَحْزُنكَ

और मुझ से डरो अगर ईमान वाले हो. और आप को गमगीन न करें

الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَصُرُوا

वो लोग जो कुफ्र में तेजी कर रहे हैं. यकीनन वो अद्वलाह को जरा भी जरर नहीं

اللَّهُ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ إِلَّا يَجْعَلْ لَهُمْ حَظًّا

पड़ोया सकेंगे. अद्वलाह ये याहते हैं के उन के लिये आभिरत में कोई हिस्सा

فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۱۴۶﴾ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرُوا

न रभें. और उन के लिये भारी अजाब होगा. यकीनन वो लोग जिन्हों ने कुफ्र को

الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنْ يَصُرُوا اللَّهُ شَيْئًا وَلَهُمْ

ईमान के बदले में भरीदा, वो अद्वलाह को जरा भी जरर नहीं पड़ोया सकेंगे. और उन के लिये

عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۴۷﴾ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ

दईनाक अजाब होगा. और वो लोग जिन्हों ने कुफ्र किया वो ये न समजें के जो

نُصَلِّي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنْفُسِهِمْ ۗ إِنَّمَا نُمَلِّئُهُمْ

उम उन को ढील दे रहे हैं, ये उन के लिये बेहतर है. उम तो सिई उन को ढील दे रहे हैं इस लिये

لِيُزَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿۱۴۸﴾ مَا كَانَ

ताके वो गुनाह में और बण्डें. और उन के लिये रुस्वा करने वाला अजाब होगा. अद्वलाह ऐसा

اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ

नहीं है के ईमान वालों को छोड दे उस पर जिस पर तुम हो जब तक के अरखे

النَّجِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ

से भुरे को अलग न कर दे. और अद्वलाह ऐसा नहीं है के तुम्हें गैब

عَلَىٰ الْغَيْبِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِيٰ مِنْ رُسُلِهِ مَن

पर मतलेअ करे लेकिन अद्वलाह मुत्तभण करते हैं अपने पैगम्बरों में से जिसे याहते हैं.

يَشَاءُ ۖ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۗ وَإِنْ تَوَمَّنُوا

तो अद्वलाह पर और उस के पैगम्बरों पर ईमान ले आओ. और अगर तुम ईमान लाओगे

وَ تَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿۱۴۹﴾ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ

और मुत्तकी बनोगे तो तुम्हारे लिये भारी अजर होगा. और वो लोग जो भुप्ल करते हैं उन चीजों में

يَجْتَوُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ ط

जो अल्लाह ने उन को अपने इनाम से दी है, वो ये न समझे के ये भुपल उन के लिये बेहतर है.

بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ط سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخَلُوا بِهِ يَوْمَ

भडके ये उन के लिये बुरा है. कयामत के दिन अनकरीब तौक पेडनाअे ज्ञाअेंगे उन को वो जिस के

الْقِيَامَةِ ط وَ لِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ط

साथ उनहों ने भुपल किया. और अल्लाह के लिये आस्मानों और जमीन की मीरास है.

وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿۸۳﴾ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ

और अल्लाह तुम्हारे आमाल से बाबबर है. यकीनन अल्लाह ने उन लोगों की बात सुन

الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَ نَحْنُ أَغْنِيَاءُ م

ली जिन्हों ने कडा के यकीनन अल्लाह इकीर है और हम गनी हैं. अनकरीब हम

سَتَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْاَنْبِيَاءِ بِغَيْرِ حَقٍّ ۚ

लिख रडे हैं उस को जो उनहों ने कडा और उन के अम्बिया को नाडक क्तल करने को (हम लिख रडे हैं).

وَ نَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿۸۴﴾ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْت

और हम कहेंगे के आग का अजाब यभो. ये अजाब उन आमाल के भदले में है जिन को तुम्हारे

اَيْدِيكُمْ وَ اَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَمٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿۸۵﴾

हाथों ने आगे भेजा और ये के अल्लाह भन्हों पर जरा भी जुल्म करने वाला नही है. वो लोग

الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ اِلَيْنَا اَلَّا نُوْمِنَ

जिन्हों ने कडा के यकीनन अल्लाह ने हमे ताकीदी हुकम दिया है ये के हम धिमान न लाअे किसी पैगम्बर पर

لِرِسْوَلٍ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ

जब तक के वो हमारे पास औसी कुर्बानी न लाअे जिस को आग भा जाअे. आप इरमा दीजिये के

قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَ بِالَّذِي

यकीनन तुम्हारे पास मुज से पेडले पैगम्बर रोशन मोअजिजात ले कर आअे और उस थीज को

قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿۸۶﴾

भी ले कर आअे जो तुम ने कडी. फिर तुम ने उन को कयूं क्तल किया अगर सच्ये हो.

فَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقَدْ كَذَّبَ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ جَاءُوْ

फिर अगर वो आप को जुठलायें तो यकीनन आप से पेडले पैगम्बर जुठलाअे गअे जो

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴿١٨٦﴾ كُلُّ نَفْسٍ

रोशन मोअजिजात और लिपी हुई किताबें और रोशन किताब ले कर आये. उर शप्स

ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ

मौत का मजा यখনे वाला है. और तुम्हें तुम्हारे सवाब क्यामत के दिन पूरे पूरे दिये जायेंगे.

فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ

फिर जिस शप्स को आग से दूर रखा गया और जन्नत में दाखिल किया गया तो यकीनन वो कामयाब

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴿١٨٧﴾ لَتُبْلَوُنَّ

डो गया. और दुन्यवी जिन्दगी नडी है मगर धोके का सामान. तुम्हें तुम्हारे मालों में

فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعَنَّ مِنَ الَّذِينَ

और तुम्हारे नफ्सों में ज़र आठमाया जायेगा. और उन लोगों की तरफ से जिन को तुम से पेडले

أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا

किताब दी गई और मुशरिकीन की तरफ से बडोत सी धजा पडोयाने वाली थीं

أَذَى كَثِيرًا ۖ وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ

ज़र सुनोगे. और अगर सभ्र करोगे और मुत्तकी रहोगे, तो यकीनन ये

مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿١٨٨﴾ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ

ताकीदी उमूर से है. और जब के अद्लाह ने उन लोगों से पुप्ता अडद लिया

الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ

जिन को किताब दी गई के तुम धस को लोगों के सामने ज़र बयान करोगे और तुम

وَلَا تَكْتُمُونَهُ ۚ فَبَدَّلُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا

उस को छुपाओगे नडी. फिर उन्हों ने उस अडद को अपनी पीठ पीछे डेक दिया और उस के बदले में

بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ فَبُئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿١٨٩﴾ لَا تَحْسَبَنَّ

थोडी कीमत ले ली. फिर भुरा है वो जिस को वो भरीद रहे हैं. आप गुमान न कीजिये वो लोग

الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا

जो भुश डोते हैं उन डरकतों पर जो वो कर रहे हैं और वो याडते हैं के उन की तारीफ़ की जाये

بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبنَهُمْ بِنِفَازَةِ مِنَ الْعَذَابِ ۗ

अैसे कामों में जो उन्हों ने नडी किये तो आप उन को अजाब से नजात में गुमान न कीजिये.

وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۸۸﴾ وَبِاللَّهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط

और उन के लिये दहनाक अजाब है. और अल्लाह के लिये आस्मानों और जमीन की सल्तनत है.

وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۸۹﴾ اِنَّ فِيْ خَلْقِ

और अल्लाह हर चीज पर कुदरत वाले हैं. यकीनन आस्मानों और

السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الْيَلِ وَالنَّهَارِ

जमीन के पैदा करने और रात और दिन के आने जाने में

لَايَةٍ لَّاۤوِي الْاَلْبَابِ ﴿۹۰﴾ الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ

अकल वालों के लिये निशानियां हैं. उन के लिये जो अल्लाह को याद करते हैं

قِيَمًا وَّوَقْعُوْدًا وَّ عَلَىٰ جُنُوْبِهِمْ وَّ يَتَفَكَّرُوْنَ

भडे और बैठे और अपने पेटलू पर लेट कर और वो गौर व झिंक करते हैं

فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ

आस्मानों और जमीन के पैदा करने में. ओ हमारे रब! तू ने उस को बेकार

هٰذَا بَاطِلًا ۚ سُبْحٰنَكَ فَتِنَاۤ اَعْدَابِ النَّارِ ﴿۹۱﴾ رَبَّنَا

पैदा नहीं किया. तू पाक है, तो तू हमें आग के अजाब से बचा ले. ओ हमारे रब!

اِنَّكَ مَنْ تَدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ اَخْرَجْتَهُ ط

यकीनन जिस को तू आग में दाखिल करेगा तो यकीनन तू ने उस को रुस्वा कर दिया. और जालिमों

وَمَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ﴿۹۲﴾ رَبَّنَا اِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا

के लिये कोई मद्दगार नहीं छोगा. ओ हमारे रब! यकीनन हम ने अक मुनाही को सुना जो धिमान

يُنَادِي لِلْاِيْمٰنِ اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ ۗ فَاٰمَنَّا ۗ رَبَّنَا

की आवाज लगा रहा था के धिमान ले आओ अपने रब पर, फिर हम धिमान ले आओ. ओ हमारे रब!

فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَكْفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا

फिर तू हमारे गुनाह बपश दे और हम से हमारी बुराईयां दूर कर दे और तू हमें नेक लोगों के साथ वफ़ात

مَعَ الْاَبْدَارِ ﴿۹۳﴾ رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ

दे. ओ हमारे रब! और तू हमें वो चीज अता इरमा जिस का तू ने हम से वादा किया तेरे पैगम्बरों

وَلَا تُخٰزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ﴿۹۴﴾

की जभानी और तू हमें कयामत के दिन रुस्वा न कर. यकीनन तू वादे के भिलाई नहीं करेगा.



فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ

फ़िर उन के रब ने उन की हूआ कबूल कर ली के मैं तुम में से किसी अमल करने वाले के अमल को जायेअ

مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ ۖ بَعْضُكُمْ

नहीं करूंगा, वो मर्दों में से हो या औरतों में से. तुम में से अेक

مِّنْ بَعْضٍ ۖ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ

दूसरे से हो. फ़िर वो लोग जिन्हों ने हिजरत की और जो निकाल दिये गये अपने घरों से और जिन को

وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقَاتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ

धजा दी गध मेरे रास्ते में और जिन्हों ने किताल किया और वो कत्ल किये गअे तो मैं उन से उन की

عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي

भुराधयां ज़रूर दूर कर दूंगा और मैं उन्हें ज़रूर दामिल करूंगा अैसी जन्नतों में जिन के नीचे से

مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ تَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ عِنْدَهُ

नेडरें भेडती डोंगी. अद्लाड की तरफ़ से सवाब के तौर पर. और अद्लाड के पास

حُسْنُ الثَّوَابِ ۗ لَا يُغَيِّرُكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ

भेडतरीन सवाब है. आप को धोके में न डाले उन काफ़िरों का

كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ ۗ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ۖ ثُمَّ مَا أُوتِيَهُمْ

मुल्कों मे आना ज़ना. ये थोडा नफ़ा उठाना है, फ़िर उन का ठिकाना

جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْبِهَادُ ۗ لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ

जहन्नम है. और वो भुरा भिछौना है. लेकिन वो लोग जो अपने रब से डरते हैं

لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ

उन के लिये भागात (जन्नतें) डोंगे जिन के नीचे से नेडरें भेडती डोंगी जिन में वो डमेशा रहेंगे, अद्लाड

فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۖ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ

की तरफ़ से ज़ियाज़त के तौर पर. और जो अद्लाड के पास है वो नेक लोगों के लिये भेडतर है. और

لِلْأَبْرَارِ ۗ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ

यकीनन अेडले किताब में से अलभता वो भी हैं जो धमान रभते हैं अद्लाड पर और उस किताब पर

وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ حُشْعِينَ ۗ لِلَّهِ

जो तुम्हारी तरफ़ उतारी गध और उस किताब पर जो उन की तरफ़ उतारी गध, जो अद्लाड के

لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ أُولَٰئِكَ لَهُمْ

दिये भुशुअ करने वाले हैं, वो अल्लाह की आयात के बदले में थोड़ी कीमत नहीं लेते. उन के दिये

أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٩٩﴾

उन के रब के पास उन का अजर है. यकीनन अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाले हैं.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا ۗ

ओ धिमान वालो! सध्र करो और अक दूसरे को मजभूत करो और पेडले से तैयारी रभो.

وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٢٠٠﴾

और अल्लाह से डरो ताके इलाउ पाओ.

رُكُوعًا ۲۴

سُورَةُ النِّسَاءِ مَكِّيَّةٌ (۹۲)

آيَاتُهَا ۱۷۶

और २४ रुकूअ हैं

सुरअे निसा मदीना में नाजिल हुई

ईस में १७६ आयतें हैं

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

पणउता हूं अल्लाह का नाम ले कर जो बडा मेहरबान, निहायत रहम वाला है

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ

ओ धि-सानो! अपने उस रब से डरो जिस ने तुम्हें पैदा किया

مِّنْ نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا

अक जान से और उन्डी से उन की भीवी को पैदा किया और उन दोनो से बडोत से

رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ

मर्दों और बडोत सी औरतों को इलाया. और डरो उस अल्लाह से जिस के वास्ते से तुम अक दूसरे

بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝

से सवाल करते हो और रिशतेदारी तोडने से डरो. यकीनन अल्लाह तुम पर निगरान है.

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ

और यतीमों को उन का माल दो और उलाल के बदले में उराम को (पाकीजा के बदले में गन्दे को)

بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۗ

मत लो. और उन के मालों को अपने मालों के साथ मिला कर के मत भाओ.

إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ۝ وَإِنْ حِفْظُهُمْ إِلَّا تَفْسِطُوا

यकीनन ये बडा गुनाह है. और अगर डरो ईस से के तुम धि-साइ नडी कर सकोगे यतीमों के

فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ

भारे में तो तुम निकाह करो उन औरतों से जो तुम्हें अच्छी लगें, दो दो से और तीन तीन से

وَتِلْكَ وَرُبْعًا فَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

और चार चार से. फिर अगर दसो इस से के तुम अदल नहीं कर सकोगे तो फिर अकेली से निकाह करो

أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ آدَتِي ۖ أَلَّا تَعُولُوا ۝

या अपनी बान्धियों से. ये इस के जयादा करीब है के बिल्कुल अकेली तरफ़ तुम माँहल न हो जाओ.

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ

और औरतों को उन के महर (पुशी से) दो. फिर अगर वो तुम्हें पुरशदिली से उस में से कोई

عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ۝ وَلَا تُوْتُوا

थीज हें तो तुम उस को भाओ, पुरशगवार और आसानी से उलक से उतरने वाला होने की डालत में.

السُّفَهَاءَ ۖ أَمْوَالِكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا

और बेवकूफों को अपना वो माल मत दो जिन पर अदलाह ने तुम्हें निगरां बनाया है

وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا

और उस में से उन को भाना दो और उन को कपडा दो और उन से अच्छी

مَعْرُوفًا ۝ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ

भात कडो. और यतीमों का धमिडान लो यहां तक के जब वो निकाह की उम्र को पडोंय जायें.

فَإِنِ انْتَمَ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۚ

फिर अगर तुम उन की तरफ़ से अकलमन्दी को मडसूस करो तो उन को उन के माल दे दो. और उन

وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ

को धर्राफ़ करते हुवे मत भा जाओ और जल्दी करते हुवे के कडी वो बडे हो जायेंगे. और जो

عَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ

मालदार हो उसे याडिये के अझीर रहे. और जो इकीर हो तो वो भा सकता है

بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

उई के मुताबिक. फिर जब उन को उन के माल दो

فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ۝

तो तुम उन पर गवाह बना लो. और अदलाह डिसाब लेने वाला काफ़ी है. मर्दों के लिये

نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ

हिस्सा है उस माल में से जो वालिदैन और रिश्तेदारों ने छोडा. और औरतों के लिये

نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ

हिस्सा है उस माल में से जो वालिदैन और रिश्तेदारों ने छोडा, कलील माल में से

مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۖ وَإِذَا حَضَرَ

या कसीर माल में से. मुकरर किये हुवे हिस्से के तौर पर. और जब तकसीम

الْقِسْمَةَ ۖ أُولُوا الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ

के वक्त रिश्तेदार और यतीम और मिसकीन छातिर उँ

فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ ۖ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۝

तो उस में से उन को पाना दो और उन से अच्छी बात कडो.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضِعْفًا

और उन लोगों को भी डरना याडिये के अगर वो अपने पीछे कमओर औलाद छोड जाते

خَافُوا عَلَيْهِمْ ۖ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝

तो उन पर वो डरते. तो उनहँ याडिये के वो अड्लाड से डरँ और सीधी बात कडँ.

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا

यकीनन वो लोग जो यतीमों के माल पाते हँ जुल्म से वो सिर्फ

يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ۝

अपने पेटों में आग भर रहे हँ. और अनकरीब वो आग में दामिल डोंगे.

يُؤْتِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ

अड्लाड तुम्हँ ताकीदी हुकम देते हँ तुम्हारी औलाद के बारे में के मर्द के लिये दो औरतों के हिस्से के

الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ

भराभर है. फिर अगर वो औरतें दो से ज्यादा उँ तो उन के लिये उस माल का दो तिडाई

ثُلُثًا مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۖ

हिस्सा है जो मरने वाले ने छोडा. और अगर वो औरत अक डो तो उस को आधा हिस्सा मिलेगा.

وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّمَّهَا السُّدُسُ ۖ مِمَّا تَرَكَ

और मरने वाले के वालिदैन में से डर अक के लिये छड्का हिस्सा है उस माल में से जो मरने वाले ने छोडा

إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَةٌ

अगर उस की औलाद हो. फिर अगर उस की औलाद न हो और उस के वारिधेन उस के

أَبُوهُ فَلِإِمِّهِ التُّلْثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ

वारिस हों तो उस की मां को तिहाई मिलेगा. फिर अगर उस मरने वाले के भाई हों तो उस की मां को

السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ

छद्दा हिस्सा मिलेगा वसीयत के बाद जिस की वसीयत मरने वाला करे और कर्ज अदा करने के बाद.

أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ

तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे, तुम नहीं जानते के नई के अतेबार से उन में तुम से जयादा करीब

نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ كَانَ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا

कौन है. ये मुकरर किये हुवे हिस्से के तौर पर है अल्लाह की तरफ से. यकीनन अल्लाह धर्म वाले,

حَكِيمًا ۝ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ

हिक्मत वाले हैं. और तुम्हारे लिये उस माल का आधा हिस्सा है जो तुम्हारी भीवियों ने छोडा

لَمْ يَكُنْ لِهِنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ

अगर उन की औलाद न हो. फिर अगर उन की औलाद हो तो तुम्हारे लिये यौथाई हिस्सा

الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا

है उस माल में से जो भीवियां छोड़ें वसीयत के बाद जिस की वो वसीयत करें और कर्ज अदा

أَوْ دَيْنٍ وَلِهِنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ

करने के बाद. और उन औरतों के लिये यौथाई हिस्सा है उस माल में से जो तुम शौहर छोडो अगर

لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلِهِنَّ الثُّنُّ

तुम्हारी औलाद न हो. फिर अगर तुम्हारी औलाद हो तो उन्हें आठवां हिस्सा मिलेगा उस माल में

مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

से जो तुम शौहरों ने छोडा वसीयत के बाद जिस की तुम वसीयत करो और कर्ज अदा करने के बाद.

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ

और अगर कोई मर्द औसा हो के जिस का वारिस बना जा रहा हो कलाला होने की हालत में या कोई औरत हो

أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا

धस हाल में के उस का कोई भाई हो या कोई बेटेन हो, तो उन में से हर एक को छद्दा हिस्सा मिलेगा.

أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ

झिअर अगर वो ँस से जयादा ढो तो वो सभ तिडाई में शरीक ढोंगे वसीयत के बाद जिस की वसीयत

وَصِيَّةٍ يُؤْطَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً

की जाअे और कर्ज अदा करने के बाद, ँस ढाल में के किसी को जरूर नहीं पढोंयाया जाअेगा. ये

مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ

अद्लाड की तरफ़ से ताकीदी हुकुम है. और अद्लाड ँल्म वाले, ढिल्म वाले हैं. ये अद्लाड की हुदूद हैं.

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي

और जो अद्लाड और ँस के रसूल की ँताअत करेगा तो अद्लाड ँसे जन्नतों में दाभिल करेंगे जिन

مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۗ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾

के नीचे से नेडरें बेढती ढोंगी, जिन में वो ढमेशा रहेंगे. और ये त्तारी कामयाबी है. और जो अद्लाड

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ

और ँस के रसूल की नाफ़रमानी करेगा और ँस की हुदूद से तजावुज करेगा, तो अद्लाड ँसे आग में

نَارًا خَالِدًا فِيهَا ۗ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٤﴾ وَالَّتِي

दाभिल करेंगे, ँस में वो ढमेशा रहेगा. और ँस के लिये रुस्वा करने वाला अजाब ढोगा. और जो

يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا

औरतें तुम्हारी औरतों में से बेढयाई (यानी जिना) का ँर्तिकाम करें तो तुम ँन के

عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةٌ مِّنْكُمْ ۚ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ

भिलाफ़ तुम में से यार को गवाड बना लो. झिअर अगर वो गवाड गवाडी दें तो ँन औरतों को रोक लो

فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَقَّهِنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ

घरों में यढां तक के ँन को मौत आ जाअे या अद्लाड ँन के लिये कोई दूसरा

لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾ وَالَّذِينَ يَأْتِيَنَّهَا مِنْكُمْ فَادُّوهُنَّ

रास्ता पैदा कर दे. और तुम में से जो मर्द ँस बेढयाई को करें (लिवातत) तो ँन ढोनों को ँजा ढो.

فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ

झिअर अगर वो तौबा करें और ँस्लाड करें तो ँन से औराज कर लो. यकीनन अद्लाड

كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿١٦﴾ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ

तौबा कभूल करने वाला, निढायत रहम वाला है. सिर्फ़ ँन लोगों की तौबा कभूल करना अद्लाड के

يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ

जिम्मे है जो बुरे काम करते हैं नावाकिलीयत से, फिर करीब ही में तौबा कर

مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ

लेते हैं, तो अल्लाह उन की तौबा कबूल करेंगे. और अल्लाह धर्म वाले,

عَلِيمًا حَكِيمًا ۝۱۷ وَ لَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ

खिकमत वाले हैं. और उन लोगों की तौबा कबूल नहीं है जो बुराईयां करते रहते हैं.

السَّيِّئَاتِ ۗ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ

यहां तक के जब उन में से किसी अेक की मौत का वकत करीब आ जाता है, तब वो केहता है के

إِنِّي تَبْتُ الْإِنِّ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كَفَّارٌ

मैं अब तौबा करता हूं और न उन लोगों की तौबा कबूल की जाती है जो मरते हैं इस डाल में के

أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝۱۸ يَا أَيُّهَا

वो काफिर डोते हैं. डम ने उन के लिये दहनक अजाब तैयार कर रभा है. अे

الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ

धमान वाले! तुम्हारे लिये डलाल नहीं है के औरतों के जबरदस्ती वारिस

كَرِهًا ۗ وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ

भन जाओ. और उन औरतों को मत रोको ताके तुम ले लो उस माल का कुछ खिस्सा

مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ

जो तुम ने उन औरतों को दिया है, मगर ये के वो भुली भेडयाई करें.

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ

और उन के साथ जिन्दगी गुजारो लवाई के मुताबिक. फिर अगर उन्हें नापसन्द करो

فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا

तो शायद के तुम किसी चीज को नापसन्द करो और अल्लाह ने उस में भडोत सारी लवाई

كَثِيرًا ۝۱۹ وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَّانٍ

रभी डो. और अगर तुम अेक भीवी की जगा दूसरी भीवी बदलने का धरादा करो,

زَوْجٍ ۖ وَآتَيْتُمْ أَحَدَهُنَّ قَطْرًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ

इस डाल में के तुम ने उन में से किसी अेक को डेरों माल दिया डो, तब ली उस में से कुछ मत लो.

شَيْئًا ۚ اتَّخَذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ۚ وَكَيْفَ

क्या तुम उस को लेते हो जो धोखे में और झूठा झूठा गुनाह होने की धोखे में?

تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ

और तुम कैसे उस को लेते हो धोखे में से एक दूसरे तक पहुँच चुका है

وَأَخَذَنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ۚ وَلَا تَنْكِحُوا

और उन औरतों ने तुम से भारी अड्ड लिया है? और निकाह मत करो

مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ

उन औरतों से जिन से तुम्हारे बाप दादा ने निकाह किया हो मगर वो जो पहले हो चुका.

إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا ۚ وَسَاءَ سَبِيلًا ۚ

यकीनन ये बेइयाई है और अल्लाह की नफ़रत का मूजिब है. और बुरा रास्ता है.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَتُكُمْ

तुम पर हराम की गई तुम्हारी माँ और तुम्हारी बेटियाँ और तुम्हारी बहनें

وَعَمَّتُكُمْ وَخَلَّتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ

और तुम्हारी झुंझियाँ और तुम्हारी भालाँ और भाई की बेटियाँ और बहने की बेटियाँ

وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ

और तुम्हारी वो माँ जिनको ने तुम्हें दूध पिलाया और तुम्हारी रज्जि बहनें और

وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ

तुम्हारी भवियों की माँ और तुम्हारी रबीबा औलाद, जो तुम्हारी परवरिश में हैं तुम्हारी

مَنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا

भवियों की तरफ़ से, (उन भवियों की तरफ़ से) जिन से तुम ने छुभूल किया (सोडभत की). फिर अगर तुम

دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۚ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ

ने उन से छुभूल न किया हो तो तुम पर कोई गुनाह नहीं है. और हराम की गई तुम्हारे उन बेटों की

الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ۚ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ

बहुतों जो तुम्हारी पुशतों से हैं. और हराम किया गया ये के तुम जमा करो दो बहनों को

إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۚ

मगर वो जो पहले हो चुका. यकीनन अल्लाह बख़्शने वाले, निहायत रहम वाले हैं.